

UP Board Notes Class 8 English Chapter 9 Where do all the Teachers Go ?

WORD MEANINGS (शब्दार्थ)

pinched – चुराना, **flake** – पपड़ी, **hymn** • धर्मिक गीत, **scribble** – जल्दी कुछ लिखना

(पाठ का हिन्दी अनुवाद)।

Where do all ever bad?

हिन्दी अनुवाद – सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं जब चार बजते हैं? क्या वे घरों में रहते हैं और क्या वे अपनी जुराबें धोते हैं? क्या वे पजामा पहनते हैं और क्या वे टीवी देखते हैं? और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं, तुम्हारी और मेरी तरह? क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनकी माताएँ और पिता हैं? और क्या वे कभी बच्चे थे और क्या वे भी कभी बुरे थे?

Did they ever read to you.

हिन्दी अनुवाद – क्या कभी ऐसा हुआ, कि उनकी वर्तनी कभी सही न हो? क्या उन्होंने कभी गलतियाँ कीं? क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली अगर उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराईं? क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताबें खोई थीं? क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियाँ छोड़ी थीं? क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था? क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी? मैं आज एक का उसके घर तक पीछा करूँगा और आज जानूँगा कि वे क्या करते हैं? फिर मैं उसके बारे में एक कविता में लिखूँगा, जिसे वे तुम्हें पढ़ कर सुना सकें।